

अध्याय - 8 | व्यावसायिक वित्त के स्रोत

QUIZ
PART-08

1. जब संगठन सीधे जनता से धन जुटाता है, उसे क्या कहा जाता है?

- A. ऋण पूंजी
- B. समता पूंजी
- C. सार्वजनिक जमा
- D. बैंक ऋण (C)

व्याख्या: जनता से सीधे धन स्वीकार करना सार्वजनिक जमा कहलाता है।

2. सार्वजनिक जमा पर दी जाने वाली ब्याज दर कैसी होती है?

- A. बैंक जमा से कम
- B. बैंक जमा के समान
- C. बैंक जमा से अधिक
- D. बिल्कुल नहीं (C)

व्याख्या: सार्वजनिक जमा पर बैंक जमा की तुलना में अधिक ब्याज दिया जाता है।

3. सार्वजनिक जमा का नियमन कौन करता है?

- A. SBI
- B. RBI
- C. SEBI
- D. वित्त मंत्रालय (B)

व्याख्या: सार्वजनिक जमाओं का नियमन भारतीय रिज़र्व बैंक करता है।

4. सार्वजनिक जमा कितने समय के लिए आमंत्रित की जाती है?

- A. 1 वर्ष
- B. 2 वर्ष
- C. 3 वर्ष
- D. 5 वर्ष (C)

व्याख्या: कंपनियाँ सामान्यतः 3 वर्षों के लिए सार्वजनिक जमा आमंत्रित करती हैं।

5. सार्वजनिक जमा का एक प्रमुख गुण क्या है?

- A. जटिल प्रक्रिया
- B. कम लागत वाला स्रोत
- C. संपत्तियों पर प्रभार लगता है
- D. जमाकर्ताओं को मतदान अधिकार मिलता है (B)

व्याख्या: यह स्रोत बैंक ऋण की तुलना में कम खर्चीला होता है।

6. सार्वजनिक जमा की एक सीमा क्या है?

- A. प्रक्रिया सरल होती है
- B. नई कंपनियों के लिए पूंजी जुटाना कठिन
- C. कम ब्याज दर
- D. यह हमेशा विश्वसनीय होता है (B)

व्याख्या: नई कंपनियों को जनता का विश्वास न मिलने से जमा जुटाना कठिन होता है।

7. समता अंश किस प्रकार की पूंजी का रूप है?

- A. ऋणगत पूंजी
- B. स्वामित्व पूंजी
- C. अल्पकालिक पूंजी
- D. मिश्रित पूंजी (B)

व्याख्या: समता अंश स्वामित्व पूंजी का प्रमुख रूप है।

8. समता अंशधारकों को लाभांश कैसे मिलता है?

- A. निश्चित दर पर
- B. सरकार द्वारा निर्धारित
- C. कंपनी की आय के अनुसार
- D. बैंक दर के अनुसार (C)

व्याख्या: समता अंशधारकों को निश्चित लाभांश नहीं मिलता; भुगतान आय पर निर्भर करता है।

9. समता अंश का एक मुख्य लाभ क्या है?

- A. लाभांश अनिवार्य है
- B. पूंजी स्थायी रहती है
- C. जोखिम नहीं होता
- D. कम औपचारिकताएँ (B)

व्याख्या: समता पूंजी स्थायी होती है, इसे वापस नहीं करना पड़ता।

10. समता अंश की एक प्रमुख सीमा क्या है?

- A. जोखिम कम
- B. लागत कम
- C. नए अंश निर्गमन से मौजूदा अंशधारकों की आय/मत घटने की संभावना
- D. लाभांश हमेशा सुनिश्चित (C)

व्याख्या: नए अंश जारी होने से मौजूदा अंशधारकों का हिस्सा कम हो सकता है।